

इसे वेबसाईट [www.govt\\_press\\_mp.nic.in](http://www.govt_press_mp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2013—भाँड 1, शक 1935

---

### भाग २

#### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

---

कुछ नहीं